





0117CH23



23. सात पूँछ का चूहा

एक था चूहा। उस चूहे की सात पूँछें थीं।

सब उसे चिढ़ाते – सात पूँछ का चूहा, सात पूँछ का चूहा।

तंग आकर चूहा गया नाई के पास। उसने नाई से कहा – ए नाई, मेरी एक पूँछ काट दो।

नाई ने एक पूँछ काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ़ छह पूँछें।

अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला, सब उसे चिढ़ाने लगे छह पूँछ का चूहा, छह पूँछ का चूहा।

चूहा फिर से तंग आ गया। वह गया नाई के पास।

उसने कहा – ए नाई, मेरी एक पूँछ और काट दो।

नाई ने एक पूँछ और काट दी। अब उसके पास बचीं सिर्फ़ पाँच पूँछें।



पर अगले दिन सब उसे फिर से चिढ़ाने लगे – पाँच पूँछ का चूहा, पाँच पूँछ का चूहा।

चूहा गया नाई के पास – ए नाई, मेरी एक पूँछ और काट दो। नाई ने एक पूँछ और काट दी। अब उसके पास बचीं सिर्फ़ चार पूँछें।

पर सब उसे फिर से चिढ़ाने लगे – चार पूँछ का चूहा, चार पूँछ का चूहा।

चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूँछ और काट दी। अब उसके पास बचीं सिर्फ़ तीन पूँछें।



पर सब उसे चिढ़ाते तीन पूँछ का चूहा, तीन पूँछ का चूहा।
चूहा गया नाई के पास।


नाई ने एक पूँछ और काट दी। अब उसके पास बचीं दो
ही पूँछें।

पर सब उसे चिढ़ाते – दो पूँछ का चूहा, दो पूँछ का चूहा।
तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूँछ और काट दी।
अब वह एक पूँछ का चूहा हो गया।

पर सब उसे चिढ़ाते। एक पूँछ का चूहा, एक पूँछ का चूहा।
तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने आखिरी पूँछ भी काट
दी। अब पूँछ ही नहीं बची।

लेकिन फिर भी सब चूहे को चिढ़ाते – बिना पूँछ का चूहा,
बिना पूँछ का चूहा।





इस चित्र के बारे में बच्चों से बातचीत करें और उन्हें बताएँ कि यह चित्र उड़ीसा की पट्टचित्र शैली में बना है।





क्या होता अगर?

चूहे ने बेकार ही सातों पूँछें कटवा लीं। सोचो तो, सात पूँछों से वह कितना सारा काम कर लेता। बताओ ये क्या-क्या कर पाते अगर—

- हाथी के पास चार सूँड़ होती तो...

.....
.....

- बंदर की तीन पूँछ होती तो...

.....
.....

- ऊँट की गर्दन खूब-खूब लंबी होती तो...

.....
.....


- दूसरों की बातों में न आकर चूहा अपने दिमाग से काम लेता तो...

.....
.....



बिना पूँछ के, अब क्या होगा?

रंग-बिरंगे कागज़ के टुकड़े करके चूहे के चित्र में चिपकाओ।



चूहा बिना पूँछ के
क्या नहीं कर पाएगा?

.....

.....

.....

.....

.....

अरे ! किताब पूरी हो गई !



वर्णमाला

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ

क ख ग घ ङ

च छ ज झ ञ

ट ठ ड ढ ण ङ ढ

त थ द ध न

प फ ब भ म

य र ल व

श ष स ह

क्ष त्र ज्ञ श्र

पुराने बच्चे

हम पहली के बच्चे हैं
अधरे पक्के कच्चे हैं।

एक साल हो गया हमें
इस विद्यालय में आए
पिछले पूरे साल में हमने
कितने मजे उड़ाए।

रंग बिरंगे कागज़ काटे
काट काट चिपकाए
खेले कूदे, पढ़े लिखे
और ढेरों गाने गाए।

पूरी छोले, इडली सांभर
क्या क्या माल उड़ाए
घर जा कर अपने स्कूल के
किस्से खूब सुनाए।

आने वाले साल में भी हम
मिलकर मौज़ उड़ाएँगे
नई नई चीज़ें सीखेंगे
बढ़िया गाने गाएँगे

तुम सब जो इस साल आए हो
साथ हमारे खेलोगे
साथ साथ गाने गाओगे
संग संग झूले झूलोगे।

धीरे धीरे साथ-साथ हम
ऊपर चढ़ते जाएँगे
नए नए बच्चों को ऐसे
गाने सदा सुनाएँगे।



रचनाकार - जिनकी कविता और कहानियाँ हमने पढ़ीं

हरा समंदर गोपी चंदर	विश्वदेव शर्मा
1. झूला	रामसिंहासन सहाय मधुर
2. आम की कहानी	देबाशीष देव
3. आम की टोकरी	रामकृष्ण शर्मा खद्दर
4. पत्ते ही पत्ते	वर्षा सहस्त्रबुद्धे
5. पकौड़ी	सर्वेश्वरदयाल सक्सेना
6. मेरी रेल	सुधीर
7. रसोईघर	मधु पंत
8. चूहो! म्याऊँ सो रही है मकड़ी-ककड़ी-लकड़ी	धर्मपाल शास्त्री अज्ञात
9. बंदर और गिलहरी	प्रथम संस्था, दिल्ली से साभार
10. पगड़ी	सर्वेश्वरदयाल सक्सेना
11. पतंग	सोहनलाल द्विवेदी
12. गेंद-बल्ला	निरंकारदेव सेवक
13. बंदर गया खेत में भाग	सत्यप्रकाश कुलश्रेष्ठ
14. एक बुढ़िया	निरंकारदेव सेवक
15. मैं भी	वी. सुतेयेव
16. लालू और पीलू	विनीता कृष्ण
17. चकई के चकदुम	रमेश तैलंग
18. छोटी का कमाल	सफ़र हाशमी
19. चार चने	निरंकार देव सेवक
20. भगदड़	पदुमलाल पुन्नलाल बख्शी
21. हलीम चला चाँद पर	सी.एन. सुब्रमण्यम, एकलव्य
22. हाथी चल्लम चल्लम	श्रीप्रसाद
23. सात पूँछ का चूहा पुराने बच्चे	रामनरेश त्रिपाठी सफ़र हाशमी